

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 1981/पौष 13, 1902
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 1981/1 PAUSE 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० : 2-आई० टी० सो० (पी० एन०) / 81

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1981

विषय : अप्रैल, 1980—मार्च, 1981 के लिए आयात-नीति ।

निसिख सं० आई० पी० सो०/3/9/80.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं०
9-आई० टी० सो० (पी० एन०) / 80, दिनांक 15 अप्रैल, 1980 के अधीन प्रकाशित अप्रैल,
1980—मार्च, 1981 के लिए आयात-नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2 उक्त नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे संकेतित उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे —

क्रम सं०	1980-81 की आयात-नीति की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	84	परिशिष्ट 5	वर्तमान प्रविष्टि सं० 217 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि का जोड़ा जाएगा — “217-क आर्थो ऑर्थोडैनिसीडीन”
2	204	परिशिष्ट 26	वर्तमान प्रविष्टि सं० 43 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टियों का जोड़ा जाएगा — “43-क आर्थो एनिमीडीन, 43-ख आर्थो डायनिसीडीन, 43-ग आर्थो निट्रोएनिमीडीन”

3 उपर्युक्त क्रम सं० 2 पर दर्शाए गए संशोधन के संबंध में दूध मदों का आयात इस मासिक सूचना की तारीख से पहले खाले गए अपरिबर्तनीय साख्यत्र के अधीन ही निर्यात मदों को पहले से ही जारी किए गए अनिवार्य वाइसेसों के माध्यम से होगा।

मणिनाथयण स्वामी मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

**MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL**

Public Notice No. 2—ITC (PN)/81

New Delhi, the 3rd January, 1981

Subject: Import Policy for April, 1980—March, 1981.

F. No. IPC/3/9/80 .—Attention is invited to Import Policy for April, 1980–March, 1981 published under the Department of Commerce Public Notice No. 9-ITC(PN)/80, dated the 15th April, 1980.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the said import policy at the appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import Policy 1980-81	Reference	Amendments
1.	84	Appendix 5	After the existing Entry No. 217, the following new Entry shall be added:— “217-A. Ortho-dianisidine.”
2	204	Appendix 26	After the existing Entry No. 43, the following Entries shall be added: “43-A. Ortho anisidine. 43-B. Orthodanisidine. 43-C. Orthonitroanisole.”

3. In respect of amendments at Sl. No. 2 above, import of these items against additional licences already issued to Export Houses will be allowed only to the extent covered by irrevocable letters of credit opened before the date of this Public Notice.

MANINARAYAN SWAMI, Chief Controller of Imports and Exports

